

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 मार्च 2017—चैत्र 9, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017

क्र. 5326-68-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 मार्च, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१७

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१७

[दिनांक २९ मार्च, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० मार्च, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१७ है.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १८,५५,६४,२७,७४,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक लाख पचासी हजार पांच सौ चौसठ करोड़ सत्ताईस लाख चौहत्तर हजार मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
•	भारत विनियोग - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	१,१५,४०,७३,२३,०००	१,१५,४०,७३,२३,०००
••	भारत विनियोग - लोक ऋण	पूंजी	०	९५,४६,२६,८६,०००	९५,४६,२६,८६,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	३,८५,९७,९९,०००	५१,३४,४५,०००	४,३७,३२,४४,०००
		पूंजी	२४,७०,२२,०००	०	२४,७०,२२,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१,३१,३२,०७,०००	०	१,३१,३२,०७,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	५७,७८,७७,९२,०००	१,२२,३१,०००	५७,८०,००,२३,०००
		पूंजी	४,०५,७७,२२,०००	०	४,०५,७७,२२,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ५२,३२,०४,००० पूंजी १,६०,०१,०००	१,००,००० ०	५२,३३,०४,००० १,६०,०१,०००
०५.	जेल	राजस्व २,९७,३६,२७,०००	०	२,९७,३६,२७,०००
०६.	वित्त	राजस्व १,२५,८०,७६,४७,००० पूंजी १६,९७,१०,९७,०००	२०,७४,२२,००० ०	१,२६,०१,५०,६९,००० १६,९७,१०,९७,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व २३,८८,६५,१६,०००	१,६०,०००	२३,८८,६६,७६,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व १३,९४,३४,७४,००० पूंजी १,३८,६०,५०,०००	२,१९,००,००० ०	१३,९६,५३,७४,००० १,३८,६०,५०,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व ६३,६३,९१,००० पूंजी १०,२०,०१,०००	१,०५,००० ०	६३,६४,९६,००० १०,२०,०१,०००
१०.	वन	राजस्व २३,२९,४३,३१,००० पूंजी ३,८८,८१,०१,०००	८०,००,००० ०	२३,३०,२३,३१,००० ३,८८,८१,०१,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व ५,७४,७६,७३,००० पूंजी ३,५४,४१,०४,०००	० ०	५,७४,७६,७३,००० ३,५४,४१,०४,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ८८,८०,६७,२०,००० पूंजी ७३,५२,२३,११,०००	५,१६,७२,००,००० ०	९३,९७,३९,२०,००० ७३,५२,२३,११,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व ४३,४३,१५,९६,००० पूंजी १,०००	१३,८५,००० ०	४३,४३,२९,८१,००० १,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व ९,५२,०५,०६,००० पूंजी १५,०३,८०,०००	१०,००,००० ०	९,५२,१५,०६,००० १५,०३,८०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
१५.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	६७,१७,०००	०	६७,१७,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	८७,४८,४१,०००	०	८७,४८,४१,०००
		पूंजी	२०,००,०००	०	२०,००,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	१४,३३,८३,२०,०००	०	१४,३३,८३,२०,०००
		पूंजी	१,७२,२६,०४,०००	०	१,७२,२६,०४,०००
१८.	श्रम	राजस्व	१,७८,७२,५४,०००	१,००,०००	१,७८,७३,५४,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	५३,७२,६०,४८,०००	१,०१,०००	५३,७२,६१,४९,०००
		पूंजी	३,००,००,०२,०००	०	३,००,००,०२,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	७,८०,०५,६८,०००	१,००,००,०००	७,८१,०५,६८,०००
		पूंजी	२३,९८,२३,३५,०००	०	२३,९८,२३,३५,०००
२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	८४,१२,०१,०००	०	८४,१२,०१,०००
		पूंजी	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	३४,४२,७६,६१,०००	१,००,०००	३४,४२,७७,६१,०००
		पूंजी	७,१८,८७,४६,०००	१०,००,००,०००	७,२८,८७,४६,०००
२३.	जल संसाधन	राजस्व	१०,६२,३३,२६,०००	१०,३०,०००	१०,६२,४३,५६,०००
		पूंजी	६३,०३,९६,४५,०००	१,१०,००,०००	६३,०५,०६,४५,०००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	१४,१८,४७,३६,०००	१०,००,०००	१४,१८,५७,३६,०००
		पूंजी	५९,२६,०३,०८,०००	५०,००,००,०००	५९,७६,०३,०८,०००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	६२,४६,५१,०००	६,५०,०५,००,०००	७,१२,५१,५१,०००
		पूंजी	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२६. संस्कृति	राजस्व	१,८०,४५,२५,०००	०	१,८०,४५,२५,०००
	पूंजी	३८,९७,५३,०००	०	३८,९७,५३,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	८४,८९,३८,२६,०००	३६,०००	८४,८९,३८,६२,०००
	पूंजी	७,०५,००,६७,०००	०	७,०५,००,६७,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	८८,१२,७३,०००	६४,०९,०००	८८,७६,८२,०००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१०,७८,३७,३०,०००	१,४८,८०,२१,०००	१२,२७,१७,५१,०००
	पूंजी	१०,००,०००	०	१०,००,०००
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	११,६९,८१,७३,०००	३,००,०००	११,६९,८४,७३,०००
	पूंजी	३२,३५,७०,०१,०००	०	३२,३५,७०,०१,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१,१८,८५,५८,०००	०	१,१८,८५,५८,०००
	पूंजी	१,५७,२०,००,०००	०	१,५७,२०,००,०००
३२. जनसंपर्क	राजस्व	२,९९,००,००,०००	०	२,९९,००,००,०००
	पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
३३. आदिम जाति कल्याण	राजस्व	३१,६२,४५,६७,०००	५,००,०००	३१,६२,५०,६७,०००
	पूंजी	९,०३,४४,०२,०००	०	९,०३,४४,०२,०००
३४. सामाजिक न्याय	राजस्व	६,११,६६,६०,०००	३,००,०००	६,११,६९,६०,०००
३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	६,९४,७६,४५,०००	३,०१,०००	६,९४,७९,४६,०००
	पूंजी	८१,५०,०४,०००	०	८१,५०,०४,०००
३६. परिवहन	राजस्व	७५,०६,८७,०००	०	७५,०६,८७,०००
	पूंजी	५५,०१,००,०००	०	५५,०१,००,०००
३७. पर्यटन	राजस्व	१,६४,६६,६७,०००	०	१,६४,६६,६७,०००
	पूंजी	९१,५०,०१,०००	०	९१,५०,०१,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
३८. आयुष	राजस्व	३,८५,५१,९९,०००	१,००,०००	३,८५,५२,९९,०००
	पूंजी	४६,५०,००,०००	०	४६,५०,००,०००
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१६,१०,१४,०८,०००	६०,०००	१६,१०,१४,६८,०००
	पूंजी	१,५०,०५,०००	०	१,५०,०५,०००
४०. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	३१,१८,९४,७६,०००	१,०००	३१,१८,९४,७७,०००
	पूंजी	३,११,८०,०२,०००	०	३,११,८०,०२,०००
४१. सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	८६,५२,०००	०	८६,५२,०००
४२. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	१,०७,१४,७१,०००	०	१,०७,१४,७१,०००
	पूंजी	५,४५,०२,०००	०	५,४५,०२,०००
४३. खेल और युवक कल्याण	राजस्व	१,५३,३६,९४,०००	०	१,५३,३६,९४,०००
	पूंजी	७०,४५,००,०००	०	७०,४५,००,०००
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	१७,४४,१६,९२,०००	२०,००,०००	१७,४४,३६,९२,०००
	पूंजी	५,४९,२०,०२,०००	०	५,४९,२०,०२,०००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	१,९१,२०,३७,०००	०	१,९१,२०,३७,०००
	पूंजी	८,२५,१६,१०,०००	१०,००,०००	८,२५,२६,१०,०००
४६. विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	२,३०,५३,२१,०००	०	२,३०,५३,२१,०००
	पूंजी	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	१३,८२,४९,४६,०००	०	१३,८२,४९,४६,०००
	पूंजी	३,०९,९९,४३,०००	०	३,०९,९९,४३,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	३६,१३,५०,०००	०	३६,१३,५०,०००
	पूंजी	२६,८९,५४,७६,०००	२५,००,०००	२६,८९,७९,७६,०००
४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१०,६४,८८,७७,०००	१,०००	१०,६४,८८,७८,०००
	पूंजी	२,६२,५०,०३,०००	०	२,६२,५०,०३,०००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	७,३२,१५,६६,०००	०	७,३२,१५,६६,०००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	२,३२,८१,३७,०००	३०,०००	२,३२,८१,६७,०००
५२. चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	७,७७,४८,११,०००	०	७,७७,४८,११,०००
	पूंजी	८,४३,३०,०६,०००	०	८,४३,३०,०६,०००
५३. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२,४९,६८,७१,२९,०००	०	२,४९,६८,७१,२९,०००
	पूंजी	२,२१,५०,११,०००	०	२,२१,५०,११,०००
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	१,७९,३८,५२,०००	०	१,७९,३८,५२,०००
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	४१,१८,३७,०१,०००	१०,०१,०००	४१,१८,४७,०२,०००
	पूंजी	१,९६,३८,०५,०००	०	१,९६,३८,०५,०००
५६. ग्रामोद्योग	राजस्व	२,४८,२८,४७,०००	०	२,४८,२८,४७,०००
	पूंजी	९७,९०,०००	०	९७,९०,०००
५७. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूंजी	३०,००,०१,०००	०	३०,००,०१,०००
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	२१,८५,०४,५९,०००	०	२१,८५,०४,५९,०००
	पूंजी	२८,८१,६७,०००	०	२८,८१,६७,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व १,००० पूंजी २,००,००,००,०००	० ०	१,००० २,००,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व ३४,६५,००,००० पूंजी ५,३५,६८,८४,०००	० ०	३४,६५,००,००० ५,३५,६८,८४,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व ७,९८,०७,००० पूंजी ९५,००,१३,०००	० ०	७,९८,०७,००० ९५,००,१३,०००
६२.	पंचायत	राजस्व १,७२,१०,६८,०००	१,२०,०००	१,७२,११,८८,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व १९,१९,८४,००० पूंजी ६,००,००,०००	० ०	१९,१९,८४,००० ६,००,००,०००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व ७७,६४,८४,२१,००० पूंजी १,१३,००,००,०००	३,६२,५७,२०,००० ०	८१,२७,४१,४१,००० १,१३,००,००,०००
६५.	विमानन	राजस्व ३२,८०,७९,००० पूंजी २,००,०२,०००	० ०	३२,८०,७९,००० २,००,०२,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व ९,३९,९८,८५,००० पूंजी १८,९५,०२,०००	२०,००० ०	९,३९,९९,०५,००० १८,९५,०२,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व ६,५३,८५,०२,००० पूंजी २,८१,१७,१९,०००	२,१०,००,००० ०	६,५५,९५,०२,००० २,८१,१७,१९,०००
६८.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व १,५९,४६,४६,०००	०	१,५९,४६,४६,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
६९. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	राजस्व	३७,५९,३०,०००	०	३७,५९,३०,०००
	पूंजी	७,६५,००,०००	०	७,६५,००,०००
योग {	राजस्व :	१२,३४,९९,५५,६५,०००	१,३२,९९,९८,२२,०००	१३,६७,९९,५३,८७,०००
	पूंजी :	३,९१,५७,०२,०१,०००	९६,०७,७१,८६,०००	४,८७,६४,७३,८७,०००
	वृहद-योग :	१६,२६,५६,५७,६६,०००	२,२९,०७,७०,०८,०००	१८,५५,६४,२७,७४,०००

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2017

क्र. 5326-68-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 10 OF 2017

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2017

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th March, 2017].

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2017-2018.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Eighth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2017. Short title.
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees One Lakh Eighty-Five Thousand Five Hundred Sixty Four Crore Twenty Seven Lakh Seventy Four Thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2017-2018 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of Rs. 18,55,64,27,74,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2017-2018.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
* Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt	Revenue	0	1,15,40,73,23,000	1,15,40,73,23,000
** Charged Appropriation- Public Debt	Capital	0	95,46,26, 86,000	95,46,26, 86,000
01. General Administration	Revenue	3,85,97,99,000	51,34,45,000	4,37,32,44,000
	Capital	24,70,22,000	0	24,70,22,000
02. Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	1,31,32,07,000	0	1,31,32,07,000
03. Police	Revenue	57,78,77,92,000	1,22,31,000	57,80,00,23,000
	Capital	4,05,77,22,000	0	4,05,77,22,000
04. Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	52,32,04,000	1,00,000	52,33,04,000
	Capital	1,60,01,000	0	1,60,01,000
05. Jail	Revenue	2,97,36,27,000	0	2,97,36,27,000
06. Finance	Revenue	1,25,80,76,47,000	20,74,22,000	1,26,01,50,69,000
	Capital	16,97,10,97,000	0	16,97,10,97,000
07. Commercial Tax	Revenue	23,88,65,16,000	1,60,000	23,88,66,76,000
08. Land Revenue and District Administration	Revenue	13,94,34,74,000	2,19,00,000	13,96,53,74,000
	Capital	1,38,60,50,000	0	1,38,60,50,000
09. Expenditure pertaining to Revenue Department	Revenue	63,63,91,000	1,05,000	63,64,96,000
	Capital	10,20,01,000	0	10,20,01,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
10.	Forest			
	Revenue	23,29,43,31,000	80,00,000	23,30,23,31,000
	Capital	3,88,81,01,000	0	3,88,81,01,000
11.	Commerce, Industry and Employment			
	Revenue	5,74,76,73,000	0	5,74,76,73,000
	Capital	3,54,41,04,000	0	3,54,41,04,000
12.	Energy			
	Revenue	88,80,67,20,000	5,16,72,00,000	93,97,39,20,000
	Capital	73,52,23,11,000	0	73,52,23,11,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development			
	Revenue	43,43,15,96,000	13,85,000	43,43,29,81,000
	Capital	1,000	0	1,000
14.	Animal Husbandry			
	Revenue	9,52,05,06,000	10,00,000	9,52,15,06,000
	Capital	15,03,80,000	0	15,03,80,000
15.	Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department			
	Revenue	67,17,000	0	67,17,000
16.	Fisheries			
	Revenue	87,48,41,000	0	87,48,41,000
	Capital	20,00,000	0	20,00,000
17.	Co-operation			
	Revenue	14,33,83,20,000	0	14,33,83,20,000
	Capital	1,72,26,04,000	0	1,72,26,04,000
18.	Labour			
	Revenue	1,78,72,54,000	1,00,000	1,78,73,54,000
19.	Public Health and Family Welfare			
	Revenue	53,72,60,48,000	9,01,000	53,72,69,49,000
	Capital	3,00,00,02,000	0	3,00,00,02,000
20.	Public Health Engineering			
	Revenue	7,80,05,68,000	1,00,00,000	7,81,05,68,000
	Capital	23,98,23,35,000	0	23,98,23,35,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
21.	Public Services and Management			
	Revenue	84,12,01,000	0	84,12,01,000
	Capital	15,00,00,000	0	15,00,00,000
22.	Urban Development and Environment			
	Revenue	34,42,76,61,000	1,00,000	34,42,77,61,000
	Capital	7,18,87,46,000	10,00,00,000	7,28,87,46,000
23.	Water Resources Department			
	Revenue	10,62,33,26,000	10,30,000	10,62,43,56,000
	Capital	63,03,96,45,000	1,10,00,000	63,05,06,45,000
24.	Public Works—Roads and Bridges			
	Revenue	14,18,47,36,000	10,00,000	14,18,57,36,000
	Capital	59,26,03,08,000	50,00,00,000	59,76,03,08,000
25.	Mineral Resources			
	Revenue	62,46,51,000	6,50,05,00,000	7,12,51,51,000
	Capital	8,00,00,000	0	8,00,00,000
26.	Culture			
	Revenue	1,80,45,25,000	0	1,80,45,25,000
	Capital	38,97,53,000	0	38,97,53,000
27.	School Education (Primary Education)			
	Revenue	84,89,38,26,000	36,000	84,89,38,62,000
	Capital	7,05,00,67,000	0	7,05,00,67,000
28.	State Legislature			
	Revenue	88,12,73,000	64,09,000	88,76,82,000
29.	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	10,78,37,30,000	1,48,80,21,000	12,27,17,51,000
	Capital	10,00,000	0	10,00,000
30.	Rural Development			
	Revenue	11,69,81,73,000	3,00,000	11,69,84,73,000
	Capital	32,35,70,01,000	0	32,35,70,01,000
31.	Planning Economics and Statistics			
	Revenue	1,18,85,58,000	0	1,18,85,58,000
	Capital	1,57,20,00,000	0	1,57,20,00,000
32.	Public Relations			
	Revenue	2,99,00,00,000	0	2,99,00,00,000
	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
33. Tribal Welfare	Revenue	31,62,45,67,000	5,00,000	31,62,50,67,000
	Capital	9,03,44,02,000	0	9,03,44,02,000
34. Social Justice	Revenue	6,11,66,60,000	3,00,000	6,11,69,60,000
	Capital			
35. Micro, Small & Medium Enterprises	Revenue	6,94,76,45,000	3,01,000	6,94,79,46,000
	Capital	81,50,04,000	0	81,50,04,000
36. Transport	Revenue	75,06,87,000	0	75,06,87,000
	Capital	55,01,00,000	0	55,01,00,000
37. Tourism	Revenue	1,64,66,67,000	0	1,64,66,67,000
	Capital	91,50,01,000	0	91,50,01,000
38. Ayoush	Revenue	3,85,51,99,000	1,00,000	3,85,52,99,000
	Capital	46,50,00,000	0	46,50,00,000
39. Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	16,10,14,08,000	60,000	16,10,14,68,000
	Capital	1,50,05,000	0	1,50,05,000
40. Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	31,18,94,76,000	1,000	31,18,94,77,000
	Capital	3,11,80,02,000	0	3,11,80,02,000
41. Expenditure pertaining to Shimhast, 2016	Revenue	86,52,000	0	86,52,000
	Capital			
42. Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	1,07,14,71,000	0	1,07,14,71,000
	Capital	5,45,02,000	0	5,45,02,000
43. Sports and Youth Welfare	Revenue	1,53,36,94,000	0	1,53,36,94,000
	Capital	70,45,00,000	0	70,45,00,000
44. Higher Education	Revenue	17,44,16,92,000	20,00,000	17,44,36,92,000
	Capital	5,49,20,02,000	0	5,49,20,02,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
45.	Minor Irrigation Works			
	Revenue	1,91,20,37,000	0	1,91,20,37,000
	Capital	8,25,16,10,000	10,00,000	8,25,26,10,000
46.	Science and Technology			
	Revenue	2,30,53,21,000	0	2,30,53,21,000
	Capital	4,00,00,000	0	4,00,00,000
47.	Technical Education and Skill Development			
	Revenue	13,82,49,46,000	0	13,82,49,46,000
	Capital	3,09,99,43,000	0	3,09,99,43,000
48.	Narmada Valley Development			
	Revenue	36,13,50,000	0	36,13,50,000
	Capital	26,89,54,76,000	25,00,000	26,89,79,76,000
49.	Scheduled Caste Welfare			
	Revenue	10,64,88,77,000	1,000	10,64,88,78,000
	Capital	2,62,50,03,000	0	2,62,50,03,000
50.	Horticulture and Food Processing			
	Revenue	7,32,15,66,000	0	7,32,15,66,000
51.	Religious Trust and Endowments			
	Revenue	2,32,81,37,000	30,000	2,32,81,67,000
52.	Medical Education Department			
	Revenue	7,77,48,11,000	0	7,77,48,11,000
	Capital	8,43,30,06,000	0	8,43,30,06,000
53.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	2,49,68,71,29,000	0	2,49,68,71,29,000
	Capital	2,21,50,11,000	0	2,21,50,11,000
54.	Agricultural Research and Education			
	Revenue	1,79,38,52,000	0	1,79,38,52,000
55.	Women and Child Development			
	Revenue	41,18,37,01,000	10,01,000	41,18,47,02,000
	Capital	1,96,38,05,000	0	1,96,38,05,000
56.	Rural Industry			
	Revenue	2,48,28,47,000	0	2,48,28,47,000
	Capital	97,90,000	0	97,90,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
57.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department	Capital	30,00,01,000	0	30,00,01,000
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	21,85,04,59,000	0	21,85,04,59,000
		Capital	28,81,67,000	0	28,81,67,000
59.	Externally Aided Projects pertaining to Rural Development Department	Revenue	1,000	0	1,000
		Capital	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes	Revenue	34,65,00,000	0	34,65,00,000
		Capital	5,35,68,84,000	0	5,35,68,84,000
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhand Package	Revenue	7,98,07,000	0	7,98,07,000
		Capital	95,00,13,000	0	95,00,13,000
62.	Panchayat	Revenue	1,72,10,68,000	1,20,000	1,72,11,88,000
63.	Minority Welfare	Revenue	19,19,84,000	0	19,19,84,000
		Capital	6,00,00,000	0	6,00,00,000
64.	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	77,64,84,21,000	3,62,57,20,000	81,27,41,41,000
		Capital	1,13,00,00,000	0	1,13,00,00,000
65.	Aviation	Revenue	32,80,79,000	0	32,80,79,000
		Capital	2,00,02,000	0	2,00,02,000
66.	Welfare of Backward Classes	Revenue	9,39,98,85,000	20,000	9,39,99,05,000
		Capital	18,95,02,000	0	18,95,02,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
67.	Public Works-Building			
	Revenue	6,53,85,02,000	2,10,00,000	6,55,95,02,000
	Capital	2,81,17,19,000	0	2,81,17,19,000
68.	New and Renewable Energy Sources			
	Revenue	1,59,46,46,000	0	1,59,46,46,000
69.	Nomadic and Semi Nomadic Caste Welfare			
	Revenue	37,59,30,000	0	37,59,30,000
	Capital	7,65,00,000	0	7,65,00,000
	Total			
	Revenue —	12,34,99,55,65,000	1,32,99,98,22,000	13,67,99,53,87,000
	Capital —	3,91,57,02,01,000	96,07,71,86,000	4,87,64,73,87,000
	Grand Total —	16,26,56,57,66,000	2,29,07,70,08,000	18,55,64,27,74,000